



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं. 44]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 24, 2019/माघ 4, 1940
No. 44]	NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 24, 2019/MAGHA 4, 1940

---

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2019

सं. 4/2019- सीमा शुल्क (एडीडी)

**सा.का.नि. 45(अ).**—सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपादन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 22 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 11/2014-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 11 मार्च, 2014 जिसे सा.का.नि. 179(अ), दिनांक 11 मार्च, 2014 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित गया था को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई अथवा न की गई बातों को छोड़ते हुए, करती है।

[फा. सं. 354/26/2013- टीआरयू (पार्ट I)]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2019

No. 4/2019-Customs (ADD)

**G.S.R. 45(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) read with rules 18, 20 and 22 of the Customs Tariff (Identification,

Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 11/2014-Customs (ADD), dated the 11<sup>th</sup> March, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 179 (E), dated the 11th March, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 354/26/2013 -TRU (Pt. I)]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2019

### सं. 5/2019-सीमा शुल्क (एडीडी)

**सा.का.नि. 46(अ).**—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'मेटाफिनायलीन डायामाइन' (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमा शुल्क अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आता है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2014-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 11 मार्च, 2014, जिसे सा.का.नि. 179(अ) दिनांक 11 मार्च, 2014 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (I) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9 की उपधारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उनका आंकलन तथा उन प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के अनुपालन में अधिसूचना संख्या 7/2/2018-डीजीएडी, दिनांक 26 फरवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित, समीक्षा का कार्य शुरू किया है;

और जहाँ कि केन्द्र सरकार ने विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की अवधि को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 10/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 20 मार्च, 2018, जिसे सा.का.नि. 247(अ), दिनांक 20 मार्च, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (I) में प्रकाशित किया गया था, के तहत 21 मार्च, 2019 तक जिसमें यह तारीख भी शामिल है, बढ़ा दिया था;

और जहाँ कि विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 7/2/2018-डीजीएडी, दिनांक 13 दिसम्बर, 2018, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 1, खंड 1, में दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 को प्रकाशित किया गया था, के तहत इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि;

- (i) चीन जनवादी गणराज्य से होने वाले आयात का हिस्सा यहाँ घरेलू बाजार में बहुत अधिक है;
- (ii) चीन जनवादी गणराज्य से विषयगत वस्तु की भरमार लगातार बनी रही है और यदि इस पर प्रतिपाटन शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो इस भरमार के आगे भी जारी रहने की संभावना है;
- (iii) तादात के प्रतिमान की दृष्टि से भी घरेलू उद्योग में यदि कोई सुधार होता भी है तो भी घरेलू उद्योग का बाजार में हिस्सा सुधर नहीं सका था और इसका हिस्सा आयात के हिस्से से बहुत कम रहा था। इसके अलावा मूल्यगत पैरामीटर की दृष्टि से भी इसके कामकाज में इस हद तक गिरावट आयी है कि घरेलू उद्योगों को वित्तीय हानि उठानी पड़ी है, इसको नगद घाटा हुआ है और निवेश पर भी ऋणात्मक प्रतिफल मिला है। घरेलू उद्योग का विकास प्रतिकूल रहा है। घरेलू उद्योग को लगातार क्षति हुई है;
- (iv) इस भरमार के जारी रहने और इससे घरेलू उद्योग को लगातार क्षति होने की संभावना है;

और जहाँ कि घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाने की सिफारिश की है।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम

निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देश से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से प्रतिपाटन शुल्क के आधार पर आयातित है पर कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई में प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा -

### सारणी

क्र. सं.	शीर्षक/उप शीर्षक	वस्तु का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क की राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	29215120 या 29215190	मेटाफिनायलीन डायामाइन (एमपीडीए), जिसे एम-फिनायलीन डायामाइन के नाम से भी जाना जाता है, 1, 3-डायामीनोबेन्जीन, 1,3-बेन्जीनडायामाइन, एम-अमीनोएनीलाइन, एम-बेंजीनडायामाइन, एम-डायामीनोबेनजीन, 1, 3-फिनायलीनडायामाइन, 3-एमिनोएनीलाइन, एम-फिनायलीनडायामाइन, फिनायलीनडायामाइन और एम-अमीनोएलाइन, फिनायलीनडायामाइन मेटा।	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	सिसुआन नार्थ हांगगुआंग स्पेशल कैमिल्स कंपनी लिमिटेड	716.13	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2.	29215120 या 29215190	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	झेजियांग अमीनो-केम कं. लि.	573.92	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3.	29215120 या 29215190	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	उपर्युक्त 1 और 2 पर उल्लिखित से भिन्न कोई भी उत्पादक	1015.44	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
4.	29215120 या 29215190	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	1015.44	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

2. इस अधिसूचना के तहत लगाया जाने वाला प्रतिपाटन शुल्क अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क के लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

**स्पष्टीकरण** – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. 354/26/2013-टीआरयू (पार्ट-1)]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2019

### No. 5/2019-Customs (ADD)

**G.S.R. 46(E).**—Whereas, the designated authority *vide* notification No.7/2/2018 DGAD, dated the 26<sup>th</sup> February, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 26<sup>th</sup> February, 2018, had initiated the review in term of sub-section (5) of section 9 A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of 'Metaphenylene Diamine' (hereinafter referred to as the subject goods) falling under the tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject countries), imposed *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 11/2014- Customs (ADD), dated the 11<sup>th</sup> March, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 179 (E), dated the 11<sup>th</sup> March, 2014;

And whereas, the Central Government had extended the period of imposition of anti-dumping duty on the subject goods, originating in or exported from the subject countries up to and inclusive of the 21<sup>st</sup> March, 2019 *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 10/2018-Customs (ADD), dated the 20<sup>th</sup> March, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 247(E), dated the 20<sup>th</sup> March, 2018;

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, the Designated Authority in its final findings, published *vide* notification No. F. No.7/2/2018-DGAD, dated the 13<sup>th</sup> December, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 13<sup>th</sup> December, 2018 has come to the conclusion that:

- (i) imports from China PR continue to command a significant share in the domestic market;
- (ii) there has been continued dumping of the subject goods from China PR and the dumping is likely to continue and increase if the anti-dumping duty is allowed to cease;
- (iii) even when the performance of the domestic industry improved in respect of volume parameters, the domestic industry was not able to improve its market share and was still holding a share much lower than imports. Further, its performance deteriorated in respect of price parameters to such an extent that the domestic industry was suffering financial losses, cash losses and negative return on investment. Growth of the domestic industry is adverse. The domestic industry has suffered continued injury;
- (iv) there is likelihood of continuation of dumping and injury to the domestic industry.

and has recommended the imposition of definitive anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18, 20 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency specified in the corresponding entry in column (9) and per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table.

TABLE

S. No.	Heading/ Sub-heading	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Amount of duty	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	29215120 or 29215190	Meta Phenylene Diamine' (MPDA), also known as m-Phenylene Diamine, 1,3-diaminobenzene, 1, 3-Benzenediamine, m- Aminoaniline, mBenzenediamine, m- Diaminobenzene, 1,3-Phenylenediamine, 3- Aminoaniline, mFenylendiamin, Phenylenediamine, and m- Aminoaline, Phenylenediamine meta.	China PR	Any country including China PR	Sichuan North Hongguang Special Chemical Co. Ltd.	716.13	MT	US\$
2.	29215120 or 29215190	-do-	China PR	Any country including China PR	Zhejiang Amino-Chem Co., Ltd	573.92	MT	US\$
3.	29215120 or 29215190	-do-	China PR	Any country including China PR	Any producer other than at 1 and 2	1015.44	MT	US\$
4.	29215120 or 29215190	-do-	Any Country other than China PR	China PR	Any	1015.44	MT	US\$

2. The anti-dumping duty imposed shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

**Explanation.-** For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F. No. 354/26/2013 -TRU (Pt. I)]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.